



CAREER CENTRE THE PATH TO SUCCESS

SIMPLIFICATION

Website- www.apanacareer.com/www.careercentre360.com Email- apanacareersm@gmail.com

- $\frac{3}{4} \div \frac{3}{4}$ of $\frac{3}{4} \times \frac{4}{3} + \frac{5}{2} \div \frac{2}{5}$ of $\frac{5}{4} - (\frac{2}{3} + \frac{2}{3}$ of $\frac{5}{6})$ का मान है
- $\frac{3 \div (5-5 \div (6-7) \times 8+9)}{4+4 \times 4 \div 4 \text{ of } 4}$ का मान है:
- $3 \times 2 \div 3 \text{ of } 12 - 3 \div 2 \times (2-3) \times 2 + 3 \div 2$ of 3 का मान है
- $3 \times 2 \div 3 \text{ of } 2 \times 3 \div (5 + 5 \times 5 \div 5 \text{ of } 5 - 5 \div 10 \text{ of } \frac{1}{5})$ का मान
- $(\frac{7}{5} \div \frac{7}{10} \text{ of } \frac{3}{4}) \div \frac{4}{9} - (\frac{7}{16} \div 10 \frac{1}{2} \times 7 \frac{1}{5}) \times \frac{5}{12}$ का सरलीकृत मान क्या होगा?
- $5 \div 10 \text{ of } 10 \times 4 + 4 \div 4 \text{ of } 4 \times 10 - (10-4) \div 16 \times 4$ का सरलीकृत मान क्या होगा?
- $7.3 \times 6 \div 4 \text{ of } 6 - 6 \div 2 \times (4-6) + 4 - 2 \times 3 \div 6$ of $\frac{1}{3}$ का सरलीकृत मान क्या होगा?
- 15 of $8 - 6 + [(27 - 3) \div 6 - 4]$ का सरलीकृत मान है:
- 15 of $8 + 6 + [(27 - 3) \div 6 + 4]$ का सरलीकृत मान
- $\frac{(3\frac{1}{5} - \frac{3}{5}) \div \frac{8}{5}}{1\frac{1}{7} \div (7 - (\frac{1}{7} \div \frac{1}{5}))}$ का सरलीकृत मान है:
- $\frac{(3\frac{1}{5} + \frac{3}{5}) \div \frac{8}{5}}{1\frac{1}{7} \div (7 - (\frac{1}{7} \div \frac{1}{5}))}$ का सरलीकृत मान है:
- $\frac{(3\frac{1}{5} + \frac{3}{5}) \div \frac{8}{5}}{1\frac{1}{7} \div (7 + (\frac{1}{7} \div \frac{1}{5}))}$ का सरलीकृत मान है:
- $\frac{(3\frac{1}{5} - \frac{3}{5}) \div \frac{8}{5}}{1\frac{1}{8} \div (5 + (\frac{1}{8} \div \frac{1}{3}))}$ का मान है?
- $\frac{46 - \frac{3}{4} \text{ of } 32 - 6}{37 - \frac{3}{4} \text{ of } (34 - 6)}$ का सरलीकृत मान है:
- $\frac{46 - \frac{3}{4} \text{ of } 32 - 6}{11 + \frac{3}{4} \text{ of } (34 - 6)}$ का सरलीकृत मान है:
- $\frac{46 + \frac{3}{4} \text{ of } 32 - 6}{11 + \frac{3}{4} \text{ of } (34 - 6)}$ का सरलीकृत मान है:
- $\frac{1.0025 + 6.25 \times 10^{-6}}{0.0025 + 0.95}$ का सरलीकृत मान है:
- $[1\frac{1}{5} \text{ of } (\frac{3}{7} - (1\frac{4}{15} - \frac{13}{15}) \times \frac{5}{7})] \div (\frac{6}{7} \div 5)$ का सरलीकृत
- $\frac{1}{2} \text{ of } \frac{8}{5} \div \{2\frac{1}{5} - (\frac{5}{16} + \frac{3}{5} \times 1\frac{7}{8} \div \frac{2}{3})\}$ का सरलीकृत मान =?
- यदि $\frac{10}{7} (1 - 2.43 \times 10^{-3}) = 1.417 + x$ है, तो $x = ?$
- $\frac{2}{3} \div \{ \frac{3}{7} \text{ of } \frac{14}{5} \times 1\frac{2}{3} - (3\frac{1}{2} - 2\frac{1}{6}) \}$ का सरलीकृत मान है:
- $20 - [2.8 \times 5 \div 0.7 - 3 \div 0.9 \times 1.5 + 2]$ का सरलीकृत मान क्या होगा?
- $2 \times 3 \div 2$ का $3 \times 2 \div (4 + 4 \times 4 \div 4$ का $4 - 4 \div 4 \times 4)$ का मान है:
- $5 \div 5 \text{ of } 5 \times 2 + 2 \div 2$ का $2 \times 5 - (5-2) \div 6 \times 2$ का मान है
- $2\frac{7}{8} \div (3\frac{5}{6} \div \frac{2}{7} \text{ of } 2\frac{1}{3}) \times [(2\frac{6}{7} \text{ of } 4\frac{1}{5} \div \frac{2}{3}) \times \frac{5}{9}]$ का मान है
- $(5 + 3 \div 5 \times 5) \div (4 \times 4 \div 4$ का $4 + 4 \div 4 \times 4)$ का $(3 \div 6$ का $3) = ?$
- $(\frac{2}{3} \div \frac{3}{2}$ का $\frac{2}{3})$ का $\frac{9}{15} \div (\frac{5}{4} \div \frac{5}{2} \times \frac{4}{5}$ का $\frac{2}{5})$ का $(\frac{3}{4} \times \frac{3}{4} \div \frac{4}{3}$ का $\frac{3}{4})$
- $(5\frac{1}{4} \div 4$ का $2\frac{1}{3})$ का $\frac{8}{9} \div (8 \times \frac{2}{3} \div \frac{4}{5})$ का $(8 \div \frac{4}{5}$ का $\frac{2}{3})$ का मान
- $7\frac{1}{2} \times (3\frac{1}{5} \div 5\frac{1}{3}$ का $4\frac{1}{2}) + [11 - (\frac{5}{8} + 3 - 1\frac{1}{4})] \div 5\frac{3}{4} - 5 \div 5 \times 5$ का $5 \div 25$ का मान है:

- $6 - 6 \div 6 \times 6 + (6 \div 6 \text{ का } 6) \times 6 - (3\frac{2}{3} \div \frac{2}{3} \text{ का } \frac{11}{30}) \div 5$ का मान है:
- $\frac{3}{4} \times 2\frac{2}{3} \div 1\frac{1}{5}$ का $\frac{5}{9} + \frac{2}{23} \times 3\frac{5}{6} \div 2\frac{1}{3}$ का $\frac{2}{7}$ का मान है:
- $4.5 - (3.2 \div 0.8 \times 5) + 3 \times 4 \div 6$ का मान है:
- $3.8 - (4.2 \div 0.7 \times 3) + 5 \times 2 \div 0.5$ का मान है:
- $2.8 + (5.2 \div 1.3 \times 2) - 6 \times 3 \div 8 + 2$ का मान है:
- $7.2 + (8.4 \div 0.12 \times 0.2) - 5 \times 3 \div 0.05 + 3$ का मान है:
- $5.8 + (7.4 \div 3.7 \times 5) - 6 \times 2 \div 2.5$ का मान है:
- $3.8 + (8.2 \div 4.1 \times 2) - 4 \times 3 \div 1.2$ का मान है:
- $108 \div 36 \times 4 + 2.5 \times 4 \div 0.5 - 10$ का मान है:
- $21.6 \div 3.6 \times 2 + 0.25 \times 16 \div 4 - 6$ बराबर है:
- $15.2 + 5.8 \div 2.9 \times 2 - 3.5 \times 2 \div 0.5$ का मान =?
- $9\frac{3}{4} + [2\frac{1}{6} \div \{4\frac{1}{3} - (2\frac{1}{2} + \frac{3}{4})\}]$
- $\frac{1}{2} \text{ of } \frac{8}{5} \div \{2\frac{1}{5} - (\frac{5}{16} + \frac{3}{5} \times 1\frac{7}{8} \div \frac{2}{3})\}$ का सरलीकृत मान
- $\{1\frac{1}{4} \text{ of } (2\frac{1}{3} \div 1\frac{2}{5}) - 1\frac{5}{12}\} + \frac{1}{9} \div 2\frac{1}{3} + \frac{2}{7} + \frac{1}{6}$ का मान
- $\frac{2}{3} \div \{ \frac{3}{7} \text{ of } \frac{14}{5} \times 1\frac{2}{3} - (3\frac{1}{2} - 2\frac{1}{6}) \}$ का सरलीकृत मान है:
- $20 - [2.8 \times 5 \div 0.7 - 3 \div 0.9 \times 1.5 + 2]$ का सरलीकृत
- $(18 \div 2 \text{ of } \frac{1}{4}) \times (\frac{2}{3} \div \frac{3}{4} \times \frac{5}{8}) \div (\frac{2}{3} \div \frac{3}{4} \text{ of } \frac{3}{4})$ का मान =?
- $\frac{36 \div 42 \text{ of } 6 \times 7 + 24 \times 6 \div 18 + 3 \div (2-6) - (4+3 \times 2) \div 8}{21 \div 3 \text{ of } 7}$ का मान =?
- $\frac{7 - [4 + 3(2 - 2 \times 2 + 5) - 8] \div 5}{2 \div 2 \text{ of } (4 + 4 \div 4 \text{ of } 4)}$ का मान ज्ञात कीजिए ।
- $\frac{5\frac{1}{2} \div 3\frac{2}{3} \text{ of } \frac{1}{4} + (5\frac{1}{9} - 7\frac{7}{8} - 9\frac{9}{20}) \times \frac{9}{11}}{5 \div 5 \text{ of } \frac{1}{10} - 10 \times 10 \div 20}$ का मान बताएँ
- $\frac{8 \div [(8-3) \div \{(4+4 \text{ of } 8) + 4 - 4 \times 4 \div 8\} - 2]}{8 \times 8 \div 4 - 8 \div 8 \text{ of } 2 - 7}$ का मान ज्ञात कीजिए
- $\frac{3\frac{2}{3} \div \frac{11}{30} \text{ of } \frac{2}{3} - \frac{1}{4} \text{ of } 2\frac{1}{2} \div \frac{3}{5} \times \frac{4}{5}}{\frac{2}{5} \text{ of } 7\frac{1}{2} - \frac{3}{4} \times 1\frac{1}{2} \div 2\frac{1}{4}}$ का मान क्या है
- $\frac{3}{5} \times 1\frac{7}{8} \div 1\frac{1}{3} \text{ of } \frac{3}{16} - (3\frac{1}{5} \div 4\frac{1}{2} \text{ of } 5\frac{1}{3}) \times 2\frac{1}{2} + \frac{1}{2} + \frac{1}{8} \div \frac{1}{4}$ का मान ज्ञात कीजिए ।
- $\frac{[54 - (5 \div 2) \times 8] + 13}{48 - 4 \div 3 \times 8 - 2}$ का मान ज्ञात कीजिए
- $1\frac{1}{8} \div (4\frac{1}{4} \div \frac{3}{5} \text{ of } 8\frac{1}{2}) - \frac{2}{5} \times 1\frac{1}{3} \div \frac{4}{5} \text{ of } 1\frac{2}{3} + \frac{11}{20}$ का मान ज्ञात कीजिए
- $(2\frac{6}{7} \text{ of } 4\frac{1}{5} \div \frac{2}{3}) \times 1\frac{1}{9} \div (\frac{3}{4} \times 2\frac{2}{3} \text{ of } \frac{1}{2} \div \frac{1}{4})$ का मान है:
- $\frac{7+8 \times 8 \div 8 \text{ of } 8+8 \div 8 \times 4 \text{ of } 4}{4 \div 4 \text{ of } 4+4 \times 4 \div 4 - 4 \div 4 \text{ of } 2}$ का मान है:
- $(1\frac{1}{3} \div 2\frac{6}{7} \text{ of } 5\frac{3}{5}) \div (6\frac{2}{5} \div 4\frac{1}{2} \text{ of } 5\frac{1}{3}) \times (\frac{3}{4} \times 2\frac{2}{3} \div \frac{5}{9} \text{ of } 1\frac{1}{5}) = 1 + k$ है तो, k का मान किसके बीच आएगा?
- $9 \times 6 \div 24 + 8 \div 2 \text{ of } 5 - 30 \div 4 \text{ of } 4 + 27 \times 5 \div 9$ का मान
- $24 \times 2 \div 12 + 12 \div 6 \text{ of } 2 \div (15 \div 8 \times 4) \text{ of } (28 \div 7 \text{ of } 5)$ का मान क्या है?
- एक विद्यार्थी को $9\frac{4}{9} \div 11\frac{1}{3} \text{ of } \frac{1}{6} + (1\frac{1}{3} \times 1\frac{4}{5} \div \frac{3}{5}) \times 2\frac{1}{6} \text{ of } \frac{2}{3} \div \frac{4}{3} \text{ of } \frac{2}{3}$ का मान निकालने के लिए कहा गया। उसका उत्तर $19\frac{1}{4}$ आया। उसके उत्तर और सही उत्तर में कितना अंतर है?

1. $50/9$ 2. $1/90$ 3. $3\frac{2}{3}$ 4. $6/7$ 5. $47/8$ 6. 1.2 7. $7\frac{3}{4}$

8. 114 9. 134 10. $13/64$ 11. $19/64$ 12. $19/8$ 13. $19/9$

14. 1 15. $\frac{1}{2}$ 16. 2 17. 1.0525 18. 1 19. 4 20. 0.0081

21. 1 22. 3 23. 2 24. $19/10$ 25. 5 26. $9\frac{3}{5}$ 27. $40/9$

28. $1/200$ 29. $1\frac{1}{2}$ 30. -2 31. $3\frac{1}{2}$ 32. -13.5 33. 5.8

34. 10.55 35. -275.8 36. 11 37. -2.2 38. 22 39. 7

40. 5.2 41. $47/4$ 42. 4 43. $7/6$ 44. 1 45. 3 46. $16\frac{7}{8}$

47. 7 48. $25\frac{1}{2}$ 49. $1\frac{9}{10}$ 50. $8/3$ 51. $2\frac{6}{7}$ 52. $5\frac{1}{6}$

53. $141/106$ 54. $1\frac{1}{2}$ 55. 5 56. 6.4 57. $-0.07\&-0.06$

58. $647/40$ 59. $4\frac{1}{6}$ 60. $7\frac{3}{4}$

CAREER CENTRE SASARAM

CAREER CENTRE SASARAM

CAREER CENTRE SASARAM

CAREER CENTRE SASARAM